

खबर कोना



सेन फर्नांडो : चौथे टी20 मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ शतक लगाने के बाद इंग्लैंड सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट ।

साल्ट के दूसरे टी20 शतक से इंग्लैंड ने श्रृंखला में बराबरी की

सेन फर्नांडो, 20 दिसंबर (एपी) ।

विश्व चैंपियन इंग्लैंड ने चौथे टी20 मैच में वेस्ट इंडीज को 75 रन से हराकर श्रृंखला में बराबरी की। सलामी बल्लेबाज फिल साल्ट के लगातार दूसरे शतक के दम पर इंग्लैंड ने तीन विकेट पर 267 रन बनाए। साल्ट और बटलर ने 9.5 ओवर में 117 रन जोड़े ।।टलर 29 गेंद में 55 रन बनाकर आउट हुए। साल्ट ने 119 रन बनाए जो टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड के किसी बल्लेबाज का सर्वोच्च स्कोर है। इसमें 10 छक्के और सात चौके शामिल थे। जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 16वें ओवर में 192 रन पर आउट हो गई। ब्रेंडन किंग खाता भी नहीं खोल सके और रीसे टॉपले की गेंद पर मोईन अली को कैच दे बैठे। निकोलस पूरन 15 गेंद में 39 रन बनाकर आउट हुए। वेस्ट इंडीज का स्कोर सातवें ओवर में 100 रन पर चार विकेट था।

आइपीएल में स्टार्क की रेकार्ड कमाई कड़ी मेहनत का नतीजा : एलिसा वीली

मुंबई, 20 दिसंबर (भाषा) ।

आस्ट्रेलिया की महिला टीम की कप्तान एलिसा वीली ने बुधवार को कहा कि उनके पति और तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क इंडियन प्रीमियर लीग में रेकार्ड अनुबंध के हकदार थे क्योंकि उन्होंने कई वर्षों तक कड़ी मेहनत की है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दुबई में मंगलवार को हुई नीलामी में स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा जिससे वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। अप्रैल 2016 में स्टार्क से विवाह करने वाली एलिसा ने गुरुवार से यहां भारत के खिलाफ शुरु हो रहे एकमात्र टैस्ट से पूर्व मीडिया से कहा कि देखिए, जो है वो है। उन्होंने कहा कि मिच के लिए यह शानदार लम्हा है। यह उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा है और संभवतः उसके चुने हुए विकल्पों का भी जिसमें उसने पिछले आठ में अपने देश को प्राथमिकता दी। स्टार्क द्वारा इतिहास रचने के तुरंत बाद वीली का बीयर पीते और चेहरे के भावों के साथ आश्चर्य व्यक्त करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया जिसे आस्ट्रेलियाई कप्तान ने बकवास बताया।

‘आस्ट्रेलिया पर पहली टैस्ट जीत के लिए लय जारी रखने की जरूरत’

मुंबई, 20 दिसंबर (भाषा) ।

भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर चाहती हैं कि उनके खिलाड़ी गुरुवार से यहां आस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरु होने वाले एकमात्र महिला टैस्ट में उसी जज्बे और ऊर्जा से मैदान में उतरे जो उन्होंने हाल में इंग्लैंड के खिलाफ रेकार्ड जीत के दौरान दिखाया था। हरमनप्रीत ने बुधवार को यहां पत्रकारों से कहा कि सत्र के पहले टैस्ट में हमने जैसा प्रदर्शन किया है, हम उसी ऊर्जा को इसमें भी जारी रखना चाहेंगे। यह काफी रोमांचक मुकाबला होगा क्योंकि आस्ट्रेलिया की टीम इतनी अच्छी है जिससे हर कोई उन्हें हराना चाहता है। आस्ट्रेलियाई टीम मेग लैनिंग के बिना होगी जिन्होंने हाल में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से सन्यास ले लिया है।

दो खिलाड़ियों को खेल रत्न, 26 को मिलेगा अर्जुन पुरस्कार

नई दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) ।

खेल के क्षेत्र में इस साल मिलनेवाले अर्जुन पुरस्कार और खेल रत्न पानेवाले खिलाड़ियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। बुधवार को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा करते हुए खेल मंत्रालय ने बताया कि इस साल 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए जाएंगे, वहीं दो खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है।

भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान से दो युवा बैडमिंटन खिलाड़ियों चिराग शेठ्टी और सात्विक साइराज रैकोरेड्डी को दिया जाएगा। इस बार कुल 29 खिलाड़ियों को खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में नौ जनवरी को आयोजित एक विशेष समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रदान करेंगी।

शमी के अलावा 25 अन्य खिलाड़ियों को भी अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इनमें भुजाहीन तीरंदाज शीतल देवी, पुरुष हाकी खिलाड़ी कृष्ण बहादुर पाठक और सुशीला चानू, तीरंदाज ओजस प्रवीण देवताले और अदिति गोपीचंद स्वामी, मुक्केबाज मोहम्मद हुसामुद्दीन, शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली, गोल्फर दीक्षा डागर, निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, पहलवान अंतिम पंधाल, एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता वुशू खिलाड़ी नाओरेम रोशिबिना देवी और टेबल टेनिस खिलाड़ी अयहिका मुखर्जी शामिल हैं।

राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का एलान



ध्यानचंद जीवन पर्यंत पुरस्कार : कविता सेल्वराज (कबड्डी), मंजूषा कंवर (बैडमिंटन) विनीत कुमार शर्मा (हॉकी)।

द्रोणाचार्य पुरस्कार : गणेश प्रभाकरन (मल्लखंब), महावीर सैनी (पैरा एथलेटिक्स), ललित कुमार (कुश्ती), आरबी रमेश (शतरंज), शिवेंद्र सिंह (हॉकी) द्रोणाचार्य पुरस्कार (आजीवन वर्ग) : जसकीरज सिंह ग्रेवाल (गोल्फ), भास्करन ई (कबड्डी), जयंत कुमार पुशीलाल (टेबल टेनिस)।

प्रशिक्षकों को मिलने वाले द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए गणेश प्रभाकरन (मल्लखंब), महावीर सैनी (पैरा एथलेटिक्स), ललित कुमार (कुश्ती), आरबी रमेश (शतरंज) और शिवेंद्र सिंह (हाकी) का चयन किया गया है। ध्यानचंद जीवन पर्यंत पुरस्कार के लिए कविता सेल्वराज (कबड्डी), मंजूषा कंवर (बैडमिंटन) और विनीत कुमार शर्मा (हाकी) को चुना गया है।

खेल मंत्रालय ने इस साल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार का फैसला करने के लिए 12 सदस्यीय समिति गठित की थी। इनमें अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश एएस खानविलकर, हाकी खिलाड़ी धनराज पिल्लै, पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी कमलेश मेहता, पूर्व मुक्केबाज अखिल कुमार, महिला निशानेबाज और वर्तमान राष्ट्रीय कोच शुमा शिरूर आदि समिति में शामिल थे।

‘कोलकाता गेंदबाजी आक्रमण के अगुआ होंगे स्टार्क’

नई दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) ।

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के मार्गदर्शक (मेंटोर) गौतम गंभीर ने मिचेल स्टार्क के लिए अपनी फ्रेंचाइजी द्वारा रेकार्ड बोली लगाने के फैसले को सही बताते हुए कहा कि यह आस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ‘एक्स फैक्टर’ और गेंदबाजी आक्रमण का अगुआ होगा। केकेआर ने दुबई में मंगलवार को हुई इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) नीलामी में स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए की रेकार्ड राशि में खरीदा। फ्रेंचाइजी के मार्गदर्शक गंभीर भी नीलामी में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि स्टार्क एक ‘एक्स फैक्टर’ है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा खिलाड़ी जो नई गेंद से गेंदबाजी कर सकता है, अंतिम ओवरों में गेंदबाजी कर सकता है।



हैं और सबसे अहम बात है कि वह गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि वह हमारे दो घरेलू गेंदबाजों के लिए बहुत मददगार भी साबित होगा।

निर्णायक मुकाबले में भारत को अपने शीर्षक्रम से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद

पार्ल (दक्षिण अफ्रीका), 20 दिसंबर (भाषा) ।

पहले दोनों मैचों में शुरुआती जोड़ी की नाकामी के बाद भारतीय टीम गुरुवार को तीसरे और आखिरी वनडे में दक्षिण अफ्रीका पर जीत दर्ज करने के लिए अच्छी शुरुआत की कोशिश में होगी। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को वनडे श्रृंखला में सिर्फ एक बार ही हराया है।

उसे दोहराने के लिए भारतीय टीम को सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और बी साइ सुदर्शन से अच्छे प्रदर्शन की जरूरत होगी।

भारत के तिलक वर्मा अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टी20 श्रृंखला के बाद वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी नाकाम रहे। गायकवाड़ और वर्मा

दक्षिण अफ्रीका से तीसरा व आखिरी वनडे मैच आज

भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा अपनी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टी20 श्रृंखला के बाद वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी नाकाम रहे।

को अपनी चिर परिचित लय हासिल करनी होगी क्योंकि मध्यक्रम में श्रेयस अय्यर नहीं हैं। वैसे वर्मा की जगह 30 वर्ष के रजत पाटीदार को चौथे नंबर पर उतारा जा सकता है। अय्यर पहले वनडे के बाद ही टैस्ट श्रृंखला की तैयारी में जुट गए।



लंदन : इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकैसल यूनाइटेड के खिलाफ गोल का बचाव करते चेल्सी के गोलकीपर जोर्डजे पेट्रैविक।

बचाव

संजय सिंह को चुनाव जीतने का भरोसा

नई दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) ।

निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह ने बुधवार को भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआइ) के बहुप्रतीक्षित चुनावों में जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि कुश्ती जगत को पता है कि कौन खेल के लिए फायदेमंद होगा और कौन इसे नुकसान पहुंचाएगा।

उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष संजय सिंह का अध्यक्ष पद के लिए सामना राष्ट्रमंडल खेलों की पूर्व स्वर्ण पदक विजेता अनिता श्योराण से होगा। अनिता को देश के शीर्ष पहलवानों का समर्थन हासिल है

कुश्ती महासंघ चुनाव

जिन्होंने बृजभूषण पर अपने कार्यकाल के दौरान महिला पहलवानों के कथित उत्पीड़न का आरोप लगाया था। सूत्रों की माने तो बृजभूषण के समर्थन वाले संजय सिंह के पैनल को 50 सदस्यीय निर्वाचक मंडल में से कम से कम 41

का समर्थन हासिल है। माना जा रहा है कि असम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और ओडिशा के अलावा अन्य राज्य संघ संजय सिंह के पैनल के समर्थन में मतदान करेंगे। संजय सिंह ने एंजंसी से कहा कि पूरे कुश्ती जगत को पता है कि किसने खेल की बेहतरी के लिए काम किया और किसने इसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया।

शुभमन को हटाकर बाबर फिर से शीर्ष बल्लेबाज बने

दुबई, 20 दिसंबर (भाषा) ।

भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कम समय तक ही रह पाए क्योंकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) की ओर बुधवार को जारी एकदिवसीय रैंकिंग में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम ने उन्हें पहले स्थान से हटा दिया।

शुभमन ने पिछले महीने वनडे विश्व कप के दौरान रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया था। उन्होंने हालांकि विश्व कप के बाद कोई

एकदिवसीय मैच नहीं खेला है।

बाबर 824 रेटिंग अंकों के साथ शीर्ष पहुंच गए जबकि शुभमन (810) दूसरे स्थान पर हैं। इस रैंकिंग में उनके बाद भारतीय टीम के अनुभवी खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा शामिल हैं।

श्रेयस अय्यर 12वें स्थान पर खिसक गए हैं। गेंदबाजों की सूची में

दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार है जबकि आस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड दूसरे और भारत के मोहम्मद सिराज तीसरे स्थान पर हैं।

एकदिवसीय रैंकिंग

बांग्लादेश को न्यूजीलैंड ने सात विकेट से हराया

नेलसन (न्यूजीलैंड), 20 दिसंबर (एपी) ।

हेनरी निकोल्स (95) और विल यंग (89) शतक लगाने से चूक गए लेकिन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 128 रन की साझेदारी से न्यूजीलैंड ने दूसरे एकदिवसीय मैच में बांग्लादेश को सात विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है।

बांग्लादेश ने सलामी बल्लेबाज सौम्य सरकार की 169 रन की पारी से पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 49.5 ओवर में 291 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 46.2 ओवर में तीन विकेट पर 296 रन बना कर जीत दर्ज की।

यंग ने मंगलवार को रचिन रविंद्र (33 गेंद में 45 रन) के साथ पहले विकेट के लिए

76 रन की साझेदारी कर टीम को टोस शुरूआत दिलाई। उन्होंने 94 गेंद की पारी में आठ चौके और दो छक्के लगाये। निकोल्स श्रृंखला के पहले मैच में खाता खोलने में नाकाम रहे थे। उन्होंने 99 गेंद की पारी में आठ चौका और एक छक्का लगाया। इन दोनों के आउट होने के बाद कप्तान टॉम लैथम (34) और टॉम ब्लंडेल (24) ने 22 गेंद शेष रहते न्यूजीलैंड को सात विकेट की आसान जीत दिला दी।

इससे पहले सरकार ने 151 गेंद में 169 रन की पारी खेल टीम को बड़ा स्कोर खड़ा करने में मदद की। वह लिटन दास (174 रन) इस प्रारूप में बांग्लादेश के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए।

एकदिवसीय मैच

कंगारुओं के खिलाफ एकमात्र टैस्ट मैच आज से

महिला क्रिकेट

इंग्लैंड को हराने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद

आस्ट्रेलिया पर पहली जीत दर्ज करने का सुनहरा मौका

मुंबई, 20 दिसंबर (भाषा) ।

इंग्लैंड को हराने के बाद भारतीय महिला टीम गुरुवार से आस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरु हो रहे एकमात्र टैस्ट में आस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम पर जीत दर्ज करके अपनी उपलब्धियों में इजाफा करना चाहेगी। भारत ने 46 साल में आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले दस टैस्ट में से एक भी नहीं जीता है।

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम को पता है कि सिमनरों की मददगार पिच पर उसके पास इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता।

भारतीय गेंदबाजों खासकर आफ स्पिनर दीप्ति शर्मा ने पिछले सप्ताह डी वाई पाटिल स्टेडियम पर इंग्लैंड के खिलाफ 347 रन से मिली जीत में अहम भूमिका निभाई। महिला



टैस्ट क्रिकेट के इतिहास में रनों के हिसाब से यह सबसे बड़ी जीत थी। अब दीप्ति आस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उस प्रदर्शन को दोहराना चाहेंगी।



तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने भी नई गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया है। तेज गेंदबाज पूजा वर्स्कार ने भी इंग्लैंड के खिलाफ तीन विकेट

लिये। बल्लेबाजी में हरमनप्रीत कौर (49 और नाबाद 44) , जेमिमा रौड्रिग्ज (68) और यारितका भाटिया (66) ने इंग्लैंड के खिलाफ प्रभावित किया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना से भारत को बड़ी पारी की उम्मीद होगी। बायें हाथ की बल्लेबाज शुभा सतीश इस मैच में शायद नहीं खेल सकेंगी जिन्हें इंग्लैंड के खिलाफ मैच के दौरान हेयरलाइन फ्रेजर हो गया था। पूजा पुनिया कवर के तौर पर भारतीय टीम से जुड़ी है लेकिन हरलीन देयोल को मौका मिल सकता है जिन्होंने नेट पर काफी देर अभ्यास किया। करीब 40 साल बाद भारत में टैस्ट क्रिकेट खेलने आई आस्ट्रेलियाई टीम के पास एलिसा वीली के रूप में नई कप्तान हैं। मेग लानिंग की जगह कप्तान बनी वीली के लिए भारत में टैस्ट जीतना बड़ी चुनौती होगी।

मुंबई, 20 दिसंबर (भाषा) ।

मुंबई इंडियंस के वैश्विक क्रिकेट प्रमुख महेशा जयवर्धने ने स्वीकार किया कि रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पंड्या को कप्तान बनाने का फैसला कठिन था लेकिन भविष्य को देखते हुए यह जरूरी भी था। पंड्या बतौर कप्तान मुंबई टीम में लौटे हैं जिसकी टीम के प्रशंसकों ने काफी आलोचना की है। जयवर्धने ने जियो सिनेमा से कहा कि यह कठिन फैसला था। यह जज्बाती फैसला था। प्रशंसकों की प्रतिक्रिया आना लाजमी है। लेकिन टीम को ऐसे फैसले लेने होते हैं।

जयवर्धने ने कहा कि सार्थक बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि हम हमेशा खिताब के लिए खेलना चाहते हैं।

रजिस्ट्रेशन नं. एमएम एंड पीओ/ डब्ल्यूबी/ आरएनपी- 351/2003, आरएनआई नं. 53037/1991, वर्ष 33, अंक 50 हवाई शुल्क : अग्रतला 4 रु., सिलचर और पोर्टब्लेयर 6 रु.।

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए पी श्रीनिवासन द्वारा सरस्वती प्रिंट फैक्टरी प्राइवेट लिमिटेड, 789 चौभागा (पश्चिम), कोलकाता-700105 से मुद्रित व पी श्रीनिवासन द्वारा जेएल नं. 29 व 30, नेशनल हाइवे- 6, मौजा- प्रशस्था व अंशुरहाटी, पोस्ट- सलप, डोमज़ूर, हावड़ा- 711409 से प्रकाशित। फोन : (033) 66043800 ई-मेल: jan.cal@expressindia.com, बोर्ड अध्यक्ष : धिवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक : मुकेश भास्करा **पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट : दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।